

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जून 2015—ज्येष्ठ 14, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 4 जून 2015

क्र. बी-11-03-2015-चौदह-2.— भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-04-2004-क्रेडिट II, दिनांक 20 मार्च 2015 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम खरीफ, 2015 के लिये संलग्न सूची के अनुसार तहसील स्तर पर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 मौसम खरीफ हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र.) तहसीलें

फसल-मूंगफली

पूर्वानुमान वर्ष 2014-15

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्रफल (हे. में.) (4)
1	टीकमगढ़	1 निवाड़ी	4723
		2 पृथ्वीपुर	5443
		3 पलेरा	1586
		4 जतारा	1228
		5 मोहनगढ़	563
		6 ओरछा	2560
		7 लिधौरा	1484
2	शिवपुरी	8 करेरा	33550
		9 शिवपुरी	1805

(1)	(2)	(3)	(4)	
		10	नरवर	12447
		11	पोहरी	2235
		12	पिछोर	28925
		13	खनियाधाना	19577
		14	बैराड	2890
3	खरगोन	15	खरगोन	1260
		16	भगवानपुरा	764
		17	सैगांव	850
		18	भीकनगांव	1181
		19	झिरन्या	1330
		20	कसरावद	621
		21	सनावद	594
4	छिन्दवाड़ा	22	सौंसर	4546
		23	छिन्दवाड़ा	967
		24	पांडुर्णा	5653
		25	अमरवाड़ा	1421
		26	मोहखेड़ा	1234
		27	चांद	1534
		28	बिछुआ	526
		29	उमरेठ	1304
5	नीमच	30	सिगोली	700
6	खण्डवा	31	खण्डवा	1211
		32	पंधाना	509
7	झाबुआ	33	झाबुआ	3400
		34	रानापुर	2168
8	बैतूल	35	मुल्ताई	2170
		36	आमला	716
		37	आठनेर	1337
		38	भैसदेही	12693
9	छतरपुर	39	छतरपुर	1829
		40	नौगांव	2189
		41	राजनगर	1523
		42	महाराजपुर	4432
10	धार	43	कुक्षी	1038
11	सिवनी	44	सिवनी	662
		45	लखनादौन	745
		46	छपारा	1169
12	दतिया	47	दतिया	5559
		48	बडोनी	889

(1)	(2)	(3)	(4)	
13	अलीराजपुर	49	अलीराजपुर	5552
		50	जोबट	1166
		51	सोण्डवा	1921
		52	कटठीवाड़ा	629
14	सीहोर	53	इच्छावर	568

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 मौसम खरीफ हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र.) तहसीलें

फसल-तिल

पूर्वानुमान वर्ष 2014-15

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्रफल (है. में.) (4)	
1	दतिया	1	दतिया	10625
		2	सेंबड़ा	1445
		3	भाण्डेर	3545
		4	इन्दरगढ़	2583
		5	बड़ोनी	2698
2	छतरपुर	6	छतरपुर	10883
		7	नौगांव	3024
		8	राजनगर	29287
		9	बिजावर	6517
		10	गौरीहार	2862
		11	बड़ामल्हरा	2721
		12	लवकुशनगर	3853
		13	छुवारा	1382
		14	चन्द्रला	3961
		15	महाराजपुर	4710
3	टीकमगढ़	16	निवाड़ी	4589
		17	पृथ्वीपुर	3349
		18	पलैरा	6240
		19	टीकमगढ़	4493
		20	बल्देवगढ़	2610
		21	जतारा	3634
		22	खडगापुर	3008
		23	मोहनगढ़	1107
		24	लिधोरा	5375
		25	ओरछा	616
4	पन्ना	26	पवई	6089
		27	पन्ना	2194
		28	शाहनगर	1212
		29	अजयगढ़	5841
		30	देवेन्द्रनगर	2537

(1)	(2)	(3)	(4)	
		31	गुन्नोर	6330
		32	अमानगंज	5781
		33	रैपुरा	1360
5	शिवपुरी	34	नरवर	3614
		35	करैरा	2137
		36	पोहरी	2123
		37	पिछोर	2267
		38	खनियाधाना	2324
		39	बैराड	532
6	ग्वालियर	40	ग्वालियर	3478
		41	डबरा	7747
		42	चीनोर	2136
		43	भितरवार	2870
7	मुरैना	44	केलारस	817
		45	सबलगढ़	923
		46	जौरा	916
		47	पोरसा	500
8	भिण्ड	48	भिण्ड	1641
		49	लहार	2317
		50	मेहगांव	900
		51	गोहद	1623
		52	रोन	823
		53	मिहोना	878
9	श्योपुर	54	विजयपुर	2489
		55	कराहल	4175
		56	वीरपुर	2707
		57	बड़ौदा	3164
		58	श्योपुर	5937
10	सीधी	59	गोपदबनास	2108
		60	कुसमी	1119
		61	मझोली	2070
		62	रामपुरनेकिन	1467
		63	बहरी	1211
11	शहडोल	64	ब्योहारी	1480
		65	जयसिंह नगर	1892
		66	जेतपुर	1346
		67	गोहपारू	1128
12	उमरिया	68	मानपुर	704
		69	चांदिया	1080
13	कटनी	70	बरही	505

(1)	(2)	(3)	(4)	
		71	बड़वारा	508
14	रीवा	72	हनुमना	1102
15	सतना	73	मझगावां	1947
		74	रघुराजनगर	1294
		75	नागोर	1901
		76	मैहर	865
16	सिगरोली	77	सिगरोली	2605
		78	देवसर	1662
		79	चितरगी	3679
		80	सरई	2970
		81	माडा	2338

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 मौसम खरीफ हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र.) तहसीलें

फसल-कोदोकुटकी

पूर्वानुमान वर्ष 2014-15

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्रफल (है. में.) (4)
1	उमरिया	1 बांधवगढ़	1792
		2 मानपुर	2349
		3 चंदिया	1894
		4 नौराजाबाद	1560
2	रीवा	5 हनुमना	546
3	शहडोल	6 जैतपुर	2329
		7 व्योहारी	2456
		8 जेसिंहनगर	5437
		9 गोहपारू	1602
		10 सोहागपुर	1454
4	अनूपपुर	11 पुष्पराजगढ़	9215
		12 जैतहरी	837
		13 अनूपपुर	844
		14 कोतमा	543
5	सीधी	15 गोपदबनास	2183
		16 बहरी	853
		17 कुसमी	3097
		18 मझोली	3319
		19 रामपुरनेकिन	1982
6	छिन्दवाड़ा	20 हरई	11076
		21 तामियाँ	5951
		22 जामई (जुन्नारदेव)	2955

(1)	(2)	(3)	(4)	
		23	अमरवाड़ा	914
7	मण्डला	24	नैनपुर	3159
		25	मण्डला	768
		26	बिछिआ	5898
		27	निवास	4196
		28	घूगरी	8983
		29	नारायणगंज	6725
8	जबलपुर	30	कुण्डम	2040
9	बैतूल	31	भैंसदेही	926
		32	मुल्ताई	519
		33	चिचौली	761
10	सिवनी	34	लखनादौन	2545
		35	घन्सौर	1456
		36	छपारा	1377
		37	विरसा	4023
11	बालाघाट	38	बैहर	3959
		39	परसवाड़ा	2084
12	डिण्डोरी	40	शाहपुर	14381
		41	डिण्डोरी	12961
		42	बंजाग	2881
13	सिगरोली	43	सिगरोली	1106
		44	देवसर	2465
		45	चितरंगी	5928
		46	सरई	6177
		47	माड़ा	1447

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 मौसम खरीफ हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र.) तहसीलें

फसल-कपास

पूर्वानुमान वर्ष 2014-15

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्रफल (है. में.) (4)	
1	खण्डवा	1	खण्डवा	23538
		2	पधाना	6767
		3	हरसूद	796
		4	खालवा	1703
		5	पुनासा	21386
2	बुरहानपुर	6	बुरहानपुर	17258
		7	नेपानगर	7086
		8	खकनार	17578

(1)	(2)	(3)	(4)	
3	बड़वानी	9	बड़वानी	8311
		10	ठीकरी	6655
		11	राजपुर	10600
		12	पानसेमल	9903
		13	सेंधवा	8684
		14	निवाली	1607
		15	पाटी	2950
		16	अंजड़	7893
		17	बरला	5700
4	खरगौन	18	खरगौन	22872
		19	भगवानपुरा	14639
		20	सेगांव	11648
		21	भीकनगांव	35048
		22	झिरन्या	19578
		23	कसरावद	33644
		24	महेश्वर	26480
		25	बड़वाह	25166
		26	गोगांव	18998
		27	सनावद	22403
5	छिन्दवाड़ा	28	पाण्डुर्णा	6270
		29	बिछुआ	2003
		30	सौसर	31279
6	धार	31	बदनावर	706
		32	सरदारपुर	1193
		33	मनावर	33289
		34	धर्मपुरी	11327
		35	गधवानी	6838
		36	कुक्षी	27581
		37	दही	2701
		38	कन्नोद	1570
7	देवास	39	उदयनगर	2882
		40	सतवास	2380
		41	झाबुआ	5695
8	झाबुआ	42	पेटलावद	9580
		43	थांदला	4668
		44	मेधनगर	2467
		45	राणापुर	919
		46	अलीराजपुर	1245
9	अलीराजपुर	47	जोबट	3473
		48	सोण्डवा	947
		49	चन्द्रसेखरआजादनगर	695

(1)	(2)	(3)	(4)
10	रतलाम	50	पिपलोदा
		51	रतलाम
		52	बाजना
		53	सैलाना
		54	रावटी
			1264
			6464
			1430
			7608
			4201

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 मौसम खरीफ हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र.) तहसीलें

फसल-ज्वार

पूर्वानुमान वर्ष 2014-15

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्रफल (है. में.) (4)
1	श्योपुर	1	श्योपुर
		2	बडोदा
2	ग्वालियर	3	ग्वालियर
		4	डबरा
3	भिण्ड	5	मेहगांव
		6	गोहद
		7	लहार
		8	मिहोना
4	खण्डवा	9	खण्डवा
		10	पंघाना
		11	खालवा
5	बुरहानपुर	12	बुरहानपुर
		13	खकनार
		14	नेपानगर
6	सीधी	15	रामपुर
		16	चुरहट
		17	गोपदबनास
		18	मझोली
		19	सिंहावल
		20	बहरी
7	पन्ना	21	अजयगढ़
		22	पवई
8	सतना	23	मझगवां
9	रीवा	24	त्योथर
		25	नईगढ़ी
			571
			662
			2370
			1051
			830
			1315
			1547
			624
			2899
			1160
			1782
			3390
			2407
			3263
			1294
			1171
			3742
			1096
			1469
			2263
			2283
			647
			1841
			1619
			738



(1)	(2)	(3)	(4)	
		26	सिरमौर	1376
		27	हनुमना	1625
		28	मनगवां	1010
		29	जवां	6231
		30	मऊगंज	845
10	झाबुआ	31	झाबुआ	1500
		32	रानापुर	1048
11	खरगौन	33	खरगौन	3052
		34	सैगांव	3408
		35	भगवानपुरा	4732
		36	झिरन्या	6690
		37	बड़वाह	682
		38	कसरावद	3875
		39	महेश्वर	712
		40	भीकनगांव	3129
		41	गोगांव	4313
		42	सनावद	625
12	अलीराजपुर	43	जोबट	4947
		44	अलीराजपुर	1920
		45	सोंडवा	8887
		46	कटठीवाड़ा	629
13	छतरपुर	47	चंदोला	2116
		48	गौरीहार	6853
		49	लवकुशनगर	914
14	टीकमगढ़	50	लिधौरा	685
15	बड़वानी	51	बड़वानी	2849
		52	ठीकरी	794
		53	संधवा	4890
		54	राजपुर	6363
		55	पानसेमल	3052
		56	निवाली	4775
		57	बरला	2913
		58	पाटी	6551
16	छिन्दवाड़ा	59	तामिया	1261
		60	जुन्नारदेव	2700
		61	परासिया	1205
		62	अमरवाड़ा	2092
		63	चौरई	562
		64	सोंसर	2229
		65	बिछुआ	4667

(1)	(2)	(3)	(4)	
		66	पाण्डुर्णा	8499
		67	मोखड़	2564
		68	उमरेठ	906
		69	छिन्दवाड़ा	672
17	धार	70	कुक्षी	1040
		71	दही	630
18	राजगढ़	72	राजगढ़	1853
		73	सहारनपुर	1142
		74	जीरापुर	3107
		75	व्यावरा	839
19	बैतूल	76	बैतूल	2185
		77	शाहपुर	1104
		78	मुल्ताई	5111
		79	भैंसदेही	7995
		80	आठनेर	5882
		81	चिंचोली	1173
		82	घोडाडोगरी	2326
		83	आमला	946
20	शहडोल	84	व्योहारी	500
		85	जयसिंहनगर	607
21	जबलपुर	86	शाहपुरा	642
22	सीहोर	87	इच्छावर	2148
23	देवास	88	कन्नोद	786
		89	सतवास	1136
24	सिंगरोली	90	देवसर	551
		91	चितरंगी	4679
		92	सरई	574
25	उज्जैन	93	तराना	796
26	गुना	94	गुना	2069
		95	मकसूदनगढ़	688
27	दतिया	96	सेंवड़ा	891
28	आगर	97	सुसनेर	584